

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, DELHI

ALL INDIA SR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2004

प्रवेश पत्र संस्थागत परीक्षार्थियों के लिये
ADMISSION CARD FOR REGULAR CANDIDATES
(SHOULD BE PRESERVED BY THE CANDIDATE)

अनुक्रमांक (अंकों में) Roll No. (in figures) 5620537
अनुक्रमांक (शब्दों में) Roll No. (in words) FIFTY SIX LAKH TWENTY THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY SEVEN ONLY

जन्म तिथि


Date of Birth XXXXXX

स्कूल सं.

School No. 08053

परीक्षा केन्द्र संख्या

Centre No. 5137



परीक्षार्थी का नाम Candidate's Name
ATUL KUMAR

माता का नाम Mother's Name

LALITA DEVI

पिता का नाम Father's Name

SANTOSH PRASAD

जो कि निम्नलिखित विद्यालय का / की छात्र / छात्रा है। of:

GURU NANAK HR SEC SCHOOL PEPEE CMPD RANCHI JH

परीक्षा केन्द्र Centre

DAV JAWAHAR VIDYA MANDIR SHYAMALI RANCHI JH

शारीरिक अक्षमता का वर्ग

Category of Physically challenged candidates

को निम्नलिखित विषयों में बैठने की अनुमति दी जाती है। is permitted to appear in the subjects given below:

विषय कोड SUB. CODE	विषय SUBJECT	विवरण DESCRIPTION	माध्यम MEDIUM	पत्र PAPER	दिनांक DATE
042	PHYSICS		...	1	01.03.2004
041	MATHEMATICS		...	1	10.03.2004
301	ENGLISH CORE		...	1	12.03.2004
043	CHEMISTRY		...	1	16.03.2004
083	COMPUTER SCIENCE		...	1	19.03.2004
048	PHYSICAL EDUCATION		...	1	26.03.2004

परीक्षा आरम्भ होने का समय प्रातः १०:३०
TIME OF COMMENCEMENT OF
EXAMINATION 10:30 A.M.

महत्वपूर्ण टिप्पणी : 1 परीक्षार्थी पूरे विवरण को ध्यानपूर्वक जांच लें और यदि कोई त्रुटि हो तो यथाशीघ्र विद्यालय को सूचित करें।

Important Note : Candidate must check all particulars carefully and corrections, if any, be brought to the notice of the School immediately.

2 यह कार्ड प्रधानाचार्य द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर सांक्ष्यंकित करने के बाद ही परीक्षार्थी को दिया जाए।

This card may be issued to the candidate after the attestation of photo and signature of the candidate by the Principal.

3 नेत्रहीन (दृष्टिहीन)/डाईस्लेक्सिक/बहरा/संस्तंभी (स्पेस्टिक) विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपनी विकलांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र/ऐसा दस्तावेज लायें जोकि उनकी असमर्थता एवं विकार को प्रमाणित करता हो।

Blind/Dyslexic/Deaf/Spastic/Handicapped candidates are requested to bring the medical certificate/document supporting their disability/disorder and its extent.

Atul Kumar,

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

Full Signature of the Candidate
(Not in BLOCK LETTERS)

Principal
Guru Nanak HR Sec School
(Stamp RANCHI School)

परीक्षा नियंत्रक

Controller of Examinations
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

Central Board of Secondary Education

टिप्पणी : 1 परीक्षा की तारीखों एवं समय के लिए समय सारणी भी देख लें।

Note: For dates and time of examination, please see DATE SHEET also.

2 परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को यह प्रवेश-पत्र अपने पास रखना चाहिये तथा परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के मांगने पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

The candidate must keep this admission card at the time of Examination and present on demand to the Superintendent of Examination Centre or any other person authorised on this behalf.

3 परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र में भरे हुए विषयों में ही परीक्षा देनी है। अन्य विषय या कोर्स में परीक्षार्थी को साधारणतः परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। विषय केन्द्र को दी गई सूची में हैं।